

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 79] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 16, 1981/चैत्र 26, 1903
No. 79] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 16, 1981/CHAITRA 26, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1981

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 26-ई० टी० सी० (पी० एन०)/81

विषय : 1981-82 के दौरान बिनाले की एक्सपेलर खली का निर्यात ।

वि० सं० 38(28) 81-ई०-2 :—उपर्युक्त विषयक निर्यात नियंत्रण संशोधन आदेश सं० ई० (सी०) ओ०, 1977/ए० एम० (200), दिनांक 16 अप्रैल, 1981 की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. यह निश्चय किया गया है कि बिनाले की एक्सपेलर खली का निर्यात अखिल भारतीय बिनीला कर्षा संघ, बंबई के माध्यम से उच्चतम सीमा के भीतर सरणीबद्ध किया जाए ।

3. तदनुसार, 1981-82 की निर्यात नीति के नीति विवरण के पृष्ठ 15 पर की क्रम सं० 41(1) के बाव निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :—

क्रम सं०	भारत का विवरण	लाइसेंस प्रदान करने की नीति
41(2)	बिनीले की एक्सपेलर ककी	उच्चतम सीमा के भीतर निर्यात अधिक भारतीय बिनीले क्रशर्स संघ, बंबई के माध्यम से सरणीबद्ध है।
मनी नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात		

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 16th April, 1981

Public Notice No. 26-ETC(PN)/81

SUBJECT :—Export of Cotton Seed Expeller Cakes during 1981-82.

F. No. 38(28)/81-E. II.—Attention is invited to the Exports Control Amendment Order No. E.(C)O, 1977/AM (200) dated the 16th April, 1981, on the above subject.

2. It has been decided to canalise the export of Cotton Seed Expeller Cakes within a limited ceiling through the All India Cotton Seed Crushers' Association, Bombay.

3. Accordingly the following entry will be made after S. No. 41(i), at page 15 of the Policy Statement of Export Policy for 1981-82 :—

S.No.	Description of the item	Licensing Policy
41(ii)	Cotton seed expeller cakes	Export canalised through All India Cotton Seed Crushers' Association, Bombay, within a limited ceiling.

MANI NARAYANSWAMI,
Chief Controller of Imports & Exports